



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CERTIFICATE

73AC 552915

18527

In this pursuance of the order of the collector No. 10 dated 06-04-2015  
passed under Section 10-A of Stamp Act it is certified that an amount of  
Rs. 35,44,000/- (Rupees Thirty Five Lakh Forty Four Thousands Only)  
has been paid by **ANS Developers Private Limited** in Cash as Stamp duty  
in respect of this instrument in State Bank of India, Lucknow by Challan  
No. - G120038, Dated - 02/05/2015, A copy of which annexed here with.

Dated: 06-05-2015

Chief Treasury Officer

Lucknow

06/05/2015

मुख्य कोषाधिकारी  
आदर्श कोषागार  
कलेक्टरेट, लखनऊ

†  
(श्रीश चन्द्र वर्मा)  
सचिव  
लखनऊ विकास प्राधिकरण

LLR  
(अनंवर रिज़वी)  
निदेशक  
मॉ. एएलएस. सेटलपर्स प्रा० लि०



क्रमांक ५८८ दिनांक २-५-१५  
प्रयोगन सीमा  
नाम २३.८८ किमी काला  
पहा

ठिकाना सिरु  
नाम ६ वंश २४/१/२०२०  
कलेक्टर कोटे, राजक



वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2  
 प्रपत्र : संख्या - 43 ए (1)  
 (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)  
 धनराशि जमा करने का चालान फार्म

DEPOSITOR'S COPY

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : State Bank of India, Govt. Business Branch, Lucknow

- 1- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या **ANS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED**  
 (संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है)
- 2- पता :- **308, 3RD FLOOR, TULSIANI CHAMBERS, NARIMAN POINT, MUMBAI.**
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद.....
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण :- For General Stamp Papers  
 (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा  
 किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
5. चालान की सकल राशि रु0 **35,44,000/-**
6. चालान की निबल राशि रु0 **35,44,000/-**
- 7 लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण /लेखा .....  
 शीर्षक की मुहर .....
8. लेखा- शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा- शीर्षक उप मुख्य- शीर्षक लघु-शीर्षक -उप-शीर्षक ब्यौरेवार-शीर्षक धनराशि (अंको में)

0	0	3	0	0	2	1	0	2	0	2	0	4	<b>35,44,000/-</b>

योग **35,44,000/-**

धनराशि (शब्दो में) **Rupees Thirty Five Lakh Forty Four Thousand Only**

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाल  
 विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

*Chandra Bhan*  
 जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार /बैंक के प्रयोगार्थ  
 चालान संख्या **30**

*11 May*  
 अंको में रु0 **\_\_\_\_\_** (अनुबर रिज़वी)  
 शब्दो में रु0 **\_\_\_\_\_** निदेशक  
 म० ए.एन.एस. डेलपर्स प्रा० लि०

*#*  
 (श्रीश चन्द्र वर्मा)  
 सचिव  
 लघुनाल विकास प्राधिकरण

प्राप्त किया  
 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/  
 बैंक की मुहर सहित

विवरण

: रोकड़ (विवरण सहित)  
नोट/सिक्के

1000 x  
500 x  
100 x  
50 x  
20 x  
10 x  
5 x  
2 x  
1 x

चेक (पूर्ण विवरण के साथ )

(धनराशि रूपयों में)

**Bank - Syndicate Bank  
Branch - M. C. B., Lucknow  
Cheque No. - 468759  
Amount - Rs. 35,44.000/-**

योग :

**Rs. 35,44,000/-**

टिप्पणी :-


- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालान द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक संवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा-शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
- यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे को कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

पी०एस०य०पी०-ए०पी० 3 कोषागार—10.2.2003(2238)—2003—3,00,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)

3544000-  
Thirty five Lakh Fourty Four Rupees Only  
G/120038  
02/01/15  
Ans developed pvt. ltd.

*A. H. R.*  
(अनंतर रिज़वी)  
निदेशक

मे० ए.एन.एस. डेवलपर्स प्रा० लि०



नजराना — रु० 8,81,07,200/-  
वार्षिक किराया — रु० 81,473/-  
स्टाम्प — रु० 35,44,000/-  
परगना — लखनऊ

### पट्टा—विलेख

यह पट्टा सन् 2015 के जून माह के 24 वें दिन, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर “पट्टादाता” कहा गया है) प्रथम पक्ष।

#### तथा

मेसर्स ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि०, जो कम्पनी एकट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है, एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्लाइण्ट मुम्बई-400021 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी—श्री अनवर रिजवीं पुत्र ए० ए० रिजवीं (जिनको यहां आगे चलकर “पट्टेदार” कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

2— चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये आवास

—  
(श्रीश चन्द्र वर्मा)  
सचिव  
लखनऊ विभास प्राधिकरण

(अनवर रिजवी)  
मिशनफ  
मै० ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि०



निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है।

और चूंकि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश संख्या—2711/आ—1—05—34 विविध/03, दिनांक 21/05/2005 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम—बाघामऊ, परगना, तहसील व जिला—लखनऊ में स्थित 10.638 (दस दशमलव छः सौ अड़तीस) हेक्टेयर ग्राम—समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग—1 की अधिसूचना संख्या—1201/एक—1—2013—5(52)/2013, लखनऊ, दिनांक 11, अक्टूबर, 2013 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1, सन् 1951) की धारा—117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पुर्णग्रहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

अतः शासनादेश संख्या—474/एक—1—2018—5—1(48)/2008—78, दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों, निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदपश्चात् “निर्धारित प्रयोजन” कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये हैं।


- 3— अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित गवर्नर्मेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई0 का एक्ट संख्या—15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रु0 8,81,07,200.00/- (रुपया आठ करोड़ इक्कायासी लाख सात हजार दो सौ) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रु0 81,473.00/-



(रूपया इक्कयासी हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) अर्थात् कुल रूपये 8,81,88,673.00 (रूपया आठ करोड़ इक्कयासी लाख अटठासी हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं० जी 70013 तथा जी 040066, दिनांक 22.07.14 व 01.10.2014 के माध्यम से विकासकर्ता/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रु० 81,473/- (रूपया इक्कयासी हजार चार सौ तिहत्तर ) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतदद्वारा वह सब भूखण्ड, जिनका विवरण इसकी अनुसूची में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त “भूमि” कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2015 ई० के जून माह के 24....वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रु० 81,473/- (रूपया इक्कयासी हजार चार सौ तिहत्तर) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जून के पहले सप्ताह में कलेक्टर—लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय—समय पर नियत स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

#### और पट्टादाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :-

1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टादाता को होगा।



3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30–30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया ₹0 81,473/- (रुपया इक्कयासी हजार चार सौ तिहत्तर) मात्र की दर से ₹0 81,473/- की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात् दिनांक 22.07.14 व 01.10.2014 को चालान संख्या जी 70013 एवं जी 040066 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार

५

4


(श्रीश चन्द्र वर्मा)

राज्यिक

लखनऊ विकास प्राधिकरण


६  
(अनंतर रिज़वी)  
जिल्हासाक

से० ए० ए० ए० ए० लैपलपर्स प्रा० लि०



पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जून के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।

9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात किसी समय अवधारित, भारित, आरोपित किये जायें।
12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहाँ दी गयी अवधि में हस्तांतरित हो, पट्टेदार उक्त हस्तांतरण के दिनांक से एक पंचांग मास के भीतर उक्त हस्तांतरण की सूचना जिलाधिकारी, लखनऊ को देगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्यौरे होंगे तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिक्री या आदेश, प्रमाण—पत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तांतरण पर पड़ता हो, देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख्य जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07(सात) दिन रहेंगे तथा एतद्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्डस्वरूप रूपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर सक्षम



अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जावे मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।

14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को पट्टादाता को बिलकुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।
16. प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध है कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात एक माह तक भुगतान न होगा, तो वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह हस्तान्तरण बिलकुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे।



यह भी प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तांतरित उक्त भूमि की पट्टादाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले, किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को क्रय करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा, जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता पट्टेदार से यह प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियां इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न होगी और पट्टादाता कोई ऐसा नवीनीकरण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर

(श्रीया चन्द्र कुमार)

राज्यपाल


लखनऊ | प्रकाश नियोजन

7

(अनिल कुमार सिंह)

निदेशक

मेरा पुस्तकालय देवलपर्स प्रा० लि०



पर हो जो उक्त भूमि के संबंध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये, उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख की केवल उन्हीं प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों को समावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तांतरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय हैं अथवा भविश्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि : —

- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खाने एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कृष्ण पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)


सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(अनंदर रिज़वी)

निदेशक

लै० ए.एन.एस. डेवलपर्स प्रा० लि०



4— भूमि का विवरण निम्नवत हैः—


जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)	विवरण/प्रयोजन
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	बाधामऊ			आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपयोगार्थ
				70	0.100	
				74	0.036	
				88	0.013	
				89	0.152	
				94	0.341	
				96	0.107	
				99	0.809	
				130 पी	0.052	
				142	0.405	
				145	0.114	
				160	0.029	
				165	0.021	
				170	0.021	
				177	0.035	
				178	0.093	
				181	0.107	
				183	0.089	
				229	0.169	
				246	0.026	
				249	0.022	
				250	0.052	
				260	0.095	
				271	0.062	
				308	0.177	
				328	0.052	
				334	0.048	
				345	0.044	
				540 पी	0.060	
				560 पी	0.065	
				632	0.250	
				633	0.044	

(श्रीशं कन्द्र वर्मा)  
राजदेश  
लखनऊ प्रभाग अधिकारी

लखनऊ प्रभाग अधिकारी

9

(अनंदर सिंधी)  
निदेशक  
मे० एन.एस. डेवलपर्स प्रा० लि०



			644 पी	0.023	
			731	0.061	
			737	0.025	
			763	0.125	
			777	0.112	
			778	0.041	
			797 पी	0.060	
			67 पी	0.126	
			82	0.319	
			148	0.063	
			437	0.038	
			441 जी	0.152	
			678	0.089	
			90 ख	0.063	
			90 ग	0.013	
			132 घ	0.607	
			138 ग	0.310	
			140 द	0.711	
			140 ध	0.177	
			140 न	0.082	
			141 ग	0.101	
			143 ख	0.170	
			150 घ	0.670	
			150 ड	0.569	
			182	0.025	
			222 प, ख	0.043	
			234	0.152	
			235	0.025	
			242	0.145	
			243	0.063	
			255	0.025	
			256 ख	0.031	
			259	0.051	
			261	0.190	
			306	0.379	
			310	0.177	
			312	0.234	
			320	0.031	



			324 ख	0.069	
			325	0.101	
			360	0.025	
			366 ग	0.076	
			378	0.158	
			385	0.089	
			387 ख	0.013	
			423 ग	0.010	
			423 ख	0.006	
			569 ख	0.013	
			677	0.025	
			760	0.085	
			कुल 81 गाटा	10.638	

यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 10.638 हेक्टेअर, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र ग्राम बाघामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ अर्द्ध नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रु0 8,81,07,200/- व एक वर्ष का लीज रेंट रु0 81,473/- सहित कुल धनराशि रु0 8,81,88,673/- अदा की गयी है। चूंकि प्रश्नगत विलेख के माध्यम से 30 वर्ष के पट्टे पर तथा पुनः उसी अवधि के दो नवीनीकरण कराये जाने के प्राविधान के साथ कुल मिलाकर अधिकतम 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक नवीनीकरण रजिस्टर्ड विलेख के माध्यम से कराया जाना होगा। अतः स्टाम्प शुल्क अदायगी प्रयोजन हेतु 6 वर्ष का औसत वार्षिक किराया रु0—4,88,838/- होता है, तथा नजराने की धनराशि 8,81,07,200/- दोनों मिलाकर रूपये—8,85,96,038/- होता है, जिस पर नियमानुसार रु0 35,44,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा कर दिया गया है।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(अनन्द रिज़बी)

निदेशक

सौ. ए.एन.एस. डेवलपर्स प्रा.० लि०

पट्टा विलेख	(30 वर्ष )
88,107,200.00	10,000.00      40      10,040.00      2,000

प्रतिफल मालियत ओसत वार्षिक किराया फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री मैसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी

पुत्र श्री एम.ए.रिजवी

व्यवसाय नौकरी

निवासी श्वार्या 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्वाइण्ट मुम्बई

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/6/2015 समय 1:43PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

*LLRig.*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव  
उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

24/6/2015



पट्टा गृहीता

श्री मैसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स  
प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी  
पुत्र श्री एम.ए.रिजवी  
पेशा नौकरी  
निवासी 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्वाइण्ट मुम्बई

निपादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त  
पट्टा दाता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन  
श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वा.शीष चन्द्र वर्मा सचिव  
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपसिथिति  
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र  
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

ने निपादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शत्रोहन लाल एड.कलै.कोर्ट, लखनऊ

पेशा नौकरी

निवासी

व श्री डा.जितेन्द्र कटियार तहसीलदार ल.वि.प्रा.लखनऊ  
आर.एस.कटियार

पुत्र श्री

पेशा नौकरी

निवासी 3/259, विनम्र खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

ने की।


पत्वक्षतः भड़ साक्षियों के निशान असूटे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव  
उप-निबन्धक (द्वितीय)  
लखनऊ  
24/6/2015

हिमेश



(अनन्द चित्राची)

निरापक  
प्रयोगक  
दोष एवं उल्लंघन

प्रयोगक

(श्री) चन्द्र सचिव  
संचार विकास

प्राधिकरण  
लखनऊ

## પટ્ટા ગૃહીતા

Registration No. : 9652

Year : 2,015


Book No. : 1

0201 મેસર્સ એ.એન.એસ.ડેવલપર્સ પ્રા.લિ.દ્વા.અધિ.હરસ્તા.અનવર રિજવી

એમ.એ.રિજવી

308 તુલસિયાની ચૈમ્બર્સ નરીમન પ્યાઇણ્ટ મુમ્બર્ઝ

નોકરી



इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या—1160/8-3-12-122एल0ए0/09, दिनांक 01, जून, 2012 के माध्यम से अधिकृत श्री श्रीशचन्द वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री अनवर रिज़वी, निदेशक बहौसियत अधिकृत हस्ताक्षरी वास्ते मेसर्स ए०एन०एस० लि०, ने नीचे उन दिनों को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी है।

साक्षीगण :

1. ह०

नाम..... Shatrughna Jaf  
Advocate  
पिता का नाम.....  
पता..... Collectorate Court  
..... Lucknow

(.....)

पट्टाकर्ता की ओर से एवं  
उसके उसके द्वारा अधिकृत

*श्री श्रीशचन्द वर्मा*  
*लखनऊ विकास प्राधिकरण*

2. ह०

नाम.....  
पिता का नाम.....  
पता..... D.E.W.L.P.  
..... किंगडम

(.....)

पट्टेदार की ओर से एवं  
उसके उसके द्वारा अधिकृत

*(अनवर रिज़वी)*

*निदेशक*  
*स० ए.एन.एस. डेवलपर्स प्रा० लि०*

आज दिनांक 24/06/2015 को

वही सं 1 जिल्द सं 16966

पृष्ठ सं 379 से 408 पर क्रमांक 9652

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

24/6/2015

